



Telephone : 044 – 28889392, 28415702  
E-Mail : investor@iobnet.co.in  
FAX : 044 – 28585675

## इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

### Indian Overseas Bank

Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

### Investor Relations Cell

IRC/77/2018-19

22.06.2018

The Vice President  
**National Stock Exchange Limited**  
"Exchange Plaza", C-1, Block G  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)  
**Mumbai- 400 051**

The Senior General Manager  
Dept. of Corporate Services  
**BSE Limited**  
Floor 1, P.J. Towers, Dalal Street  
**Mumbai 400 001**

Dear Sir,

**18<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) to be held on 11<sup>th</sup> July 2018**  
**- Notice to Shareholders and Newspaper Publications**

We refer our letter No.IRC/67/2018-19 dated 11.06.2018 intimating convening of our Annual General Meeting on 11<sup>th</sup> July 2018 at Chennai and Book closure from **04.07.2018 to 11.07.2018** (both the days inclusive).

In this regard, we have published Notice to Shareholders in three Newspapers viz., Jansatta (Hindi), The Hindu (Tamil) and Financial Express (English) on 19.06.2018 for the information of our shareholders. We enclose newspaper publication of the Notice to Shareholders.

Notice to shareholders is also available in our Bank's website under the link: <https://www.iob.in/upload/CEDocuments/AGM-Paper-Publication-19062018.pdf>

Please take the above intimation in your records.

Thanking You

Yours faithfully,

**Deepa Chellam**  
**Company Secretary**

**Encl: As above**





## इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank

Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

### NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on **Wednesday, 11th July 2018 at 10.00 A.M. at Auditorium, Staff College, Indian Overseas Bank, Behind Vee Care Hospital, 100 Feet Road towards Thirumangalam, 230/7A Jawaharlal Nehru Road, Anna Nagar, Chennai 600 040** to transact the following businesses:

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To issue further shares to public.
3. To consider further issue of shares to Employees.

By order of the Board of Directors  
For Indian Overseas Bank  
(R Subramaniakumar)  
Managing Director & CEO

Place: Chennai  
Date : 11.06.2018

#### NOTES:

1. THIS NOTICE IS BEING PUBLISHED UNDER THE PROVISIONS OF REGULATION 56 (i) OF INDIAN OVERSEAS BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2003 (Amended upto 2008). For full Notice including Resolutions, Explanatory Statement etc. Shareholders are requested to refer the Notice issued to them. Further, text of Notice is also available on the website of the Bank viz. [www.iob.in](http://www.iob.in) together with Proxy Form and Attendance Slip.
2. The voting for Agenda items shall be conducted by remote e-voting and voting at the meeting. Each shareholder shall have one vote for each share held by him / her as on the **Cut-off Date i.e. 29<sup>th</sup> June 2018**, to vote on the items in the Agenda. The shareholder whose name is recorded in the register of shareholders or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting. However no shareholder other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
3. The Register of Shareholders and Share Transfer Register of the Bank will remain closed from **04.07.2018 (Wednesday) to 11.07.2018 (Wednesday)** (both days inclusive).
4. The Bank has despatched notice to the shareholders either by email to the shareholders whose email ids are registered with the Depository / Bank or by courier to the address registered with the Bank.
5. In terms of Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, your Bank is providing Remote e-voting facility to shareholders for the agenda to be transacted in the Annual General Meeting, for which Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) has been appointed as e-voting agency. Shareholders should log on to the e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). In case of any queries, write to CDSL at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact CDSL at 1800225533 / 022 23058542.
6. **The Remote e-voting period commences on 08.07.2018 at 9.00 a.m. (IST) and ends on 10.07.2018 at 5.00 p.m. (IST)** and Remote e-voting shall be disabled thereafter. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or dematerialised form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. To enable shareholders who have not voted through remote e-voting, the Bank will be conducting voting at the venue of the meeting.
7. Kindly note that once the vote is cast electronically, the shareholders cannot modify or vote on poll at the venue, but can attend the Meeting and participate in the discussions.
8. The consolidated results of Remote e-voting and voting at the venue along with the report of the scrutinizer shall be placed on the Bank's website: [www.iob.in](http://www.iob.in) and informed to Stock Exchanges as well as CDSL.
9. Shareholders are requested to update and intimate their e-mail ids, their telephone and mobile numbers to enable the Bank to contact in case of need.



10 जनसत्ता, 19 जून, 2018



## इण्डियन ओवरसीज बैंक Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय 763, अण्णा सालै, चेन्नै-600 002

### शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के शेयरधारकों 18वीं, सालाना आम बैठक बुधवार 11 जुलाई 2018, को पूवाहन 10.00 बजे इण्डियन ओवरसीज बैंक, स्टॉफ कॉलेज, वी केयर हॉस्पिटल के पीछे, 100 फीट रोड, तिरुमंगलम की तरफ, 230/7ए, जवाहरलाल नेहरू रोड, अण्णा नगर, चेन्नै 600 040 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी :

1. 31 मार्च 2018 तक के बैंक के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ व हानि खाते तथा खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन -पत्र व खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने, उन्हें अनुमोदित करने व स्वीकार करने हेतु
2. और भी शेयर जारी करने के लिए
3. कर्मचारियों को और भी शेयर जारी करने पर विचार करने के लिए

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
कृते इण्डियन ओवरसीज बैंक के लिए  
(आर सुब्रमण्य कुमार)  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

सीन : चेन्नै  
दिनांक : 11.06.2018

#### टिप्पणियाँ :

1. यह नोटिस इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 2003 (संशोधित 2008) के विनियमन 56 (i) के प्रावधानों के तहत प्रकाशित की जाती है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि संकल्पों, व्याख्यात्मक विवरण इत्यादि सहित पूरी नोटिस के लिए उन्हें जारी की गई नोटिस का संदर्भ लें। साथ ही, परेक्षी फार्म तथा उपस्थिति पत्रों के साथ नोटिस का सार बैंक की वेबसाइट [www.iob.in](http://www.iob.in) पर भी उपलब्ध है।
2. कार्य सूची की मंजूरी के लिए मतदान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा और बैठक में वोटिंग द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। कार्य सूची में निहित मदों पर वोट करने के लिए प्रत्येक शेयरधारक के पास कट ऑफ डेट जो कि 29 जून 2018 है, तक धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा। वे शेयरधारक जिनके नाम निर्धारित तिथि को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए शेयरधारकों की पंजी या लाभ भोगी स्वामियों की पंजी में प्रदर्शित हैं, वे आम बैठक में मतदान करने के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग करने के पात्र होंगे। फिर भी, केन्द्र सरकार को छोड़ कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक के वोटिंग अधिकारों के उपयोग करने का पात्र नहीं होगा।
3. बैंक की शेयर अंतरण वही एवं शेयरधारकों की पंजी दिनांक 04.07.2018 (बुधवार) से दिनांक 11.07.2018 (बुधवार) (दोनों दिनों को मिलाकर) तक बंद रहेगी।
4. बैंक ने उन शेयरधारकों, जिनके नाम डिपॉजिटरी/बैंक के यहाँ पंजीकृत हैं, को संबंधित नोटिस उनके ई-मेलआइडी पर ई-मेल द्वारा अथवा बैंक के यहाँ पंजीकृत उनके पते पर कूरियर द्वारा भेजी है।
5. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के संदर्भ में आपके बैंक ने सालाना आम बैठक में कार्य सूची पर कार्रवाई करने के लिए शेयरधारकों के वास्ते रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग ऑन करना चाहिए। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर सीडीएसएल को लिखें अथवा सीडीएसएल को 1800 200 5533/022 23058542 पर संपर्क करें।
6. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 08.07.2018 को सुबह 9:00 बजे (आइएसटी) शुरू होगी और 10.07.2018 को शाम 5.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त होगी और इसके बाद ई-वोटिंग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बैंक के शेयरधारक जो भौतिक रूप में या बेकागजीकृत रूप में कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित किए हुए हैं वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। ऐसे शेयरधारकों के लिए जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है, बैंक बैठक के स्थल पर मतदान आयोजित करेगा।
7. कृपया नोट करें कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक बार मतदान कर देने पर, शेयरधारक मतदान स्थल पर पोल पर वोट नहीं डाल सकता अथवा उसे संशोधित नहीं कर सकता, किंतु बैठक में उपस्थिति हो सकता है और चर्चा में भाग ले सकता है।
8. रिमोट ई-वोटिंग एवं मतदान स्थान पर होने वाली वोटिंग के समेकित नतीजे जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित बैंक की वेबसाइट [www.iob.in](http://www.iob.in) पर प्रदर्शित किया जाएगा। और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ सीडीएसएल को भी दी जाएगी।
9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता तथा अपना टेलीफोन व मोबाइल नम्बर अद्यतन कर इसकी सूचना बैंक को देना कि जरूरत पड़ने पर बैंक उनसे संपर्क कर सके।





## इण्डियन ओवरसीज बैंक Indian Overseas Bank

Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

### NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on **Wednesday, 11th July 2018 at 10.00 A.M. at Auditorium, Staff College, Indian Overseas Bank, Behind Vee Care Hospital, 100 Feet Road towards Thirumangalam; 230/7A Jawaharlal Nehru Road, Anna Nagar, Chennai 600 040** to transact the following businesses:

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To issue further shares to public.
3. To consider further issue of shares to Employees.

By order of the Board of Directors  
For Indian Overseas Bank  
(R Subramaniakumar)  
Managing Director & CEO

Place: Chennai  
Date : 11.06.2018

#### NOTES:

1. THIS NOTICE IS BEING PUBLISHED UNDER THE PROVISIONS OF REGULATION 56 (I) OF INDIAN OVERSEAS BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2003 (Amended upto 2008). For full Notice including Resolutions, Explanatory Statement etc. Shareholders are requested to refer the Notice issued to them. Further, text of Notice is also available on the website of the Bank viz. [www.iob.in](http://www.iob.in) together with Proxy Form and Attendance Slip.
2. The voting for Agenda items shall be conducted by remote e-voting and voting at the meeting. Each shareholder shall have one vote for each share held by him / her as on the **Cut-off Date i.e. 29<sup>th</sup> June 2018**, to vote on the items in the Agenda. The shareholder whose name is recorded in the register of shareholders or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting. However no shareholder other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
3. The Register of Shareholders and Share Transfer Register of the Bank will remain closed from **04.07.2018 (Wednesday) to 11.07.2018 (Wednesday)** (both days inclusive).
4. The Bank has despatched notice to the shareholders either by email to the shareholders whose email ids are registered with the Depository / Bank or by courier to the address registered with the Bank.
5. In terms of Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, your Bank is providing Remote e-voting facility to shareholders for the agenda to be transacted in the Annual General Meeting, for which Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) has been appointed as e-voting agency. Shareholders should log on to the e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). In case of any queries, write to CDSL at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact CDSL at 1800225533 / 022 23058542.
6. The Remote e-voting period commences on **08.07.2018 at 9.00 a.m. (IST) and ends on 10.07.2018 at 5.00 p.m. (IST)** and Remote e-voting shall be disabled thereafter. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or dematerialised form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. To enable shareholders who have not voted through remote e-voting, the Bank will be conducting voting at the venue of the meeting.
7. Kindly note that once the vote is cast electronically, the shareholders cannot modify or vote on poll at the venue, but can attend the Meeting and participate in the discussions.
8. The consolidated results of Remote e-voting and voting at the venue along with the report of the scrutinizer shall be placed on the Bank's website: [www.iob.in](http://www.iob.in) and informed to Stock Exchanges as well as CDSL.
9. Shareholders are requested to update and intimate their e-mail ids, their telephone and mobile numbers to enable the Bank to contact in case of need.

